



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ 1938 (श0)

(सं0 पटना 536) पटना, बृहस्पतिवार, 30 जून 2016

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचनाएं
28 जून 2016

एस0ओ0 157, दिनांक 30 जून 2016—चूँकि गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या—बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)— 01/2015/252/वि0स0को0, पटना, दिनांक 18.11.2015 द्वारा वैशाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत ग्राम—अगरपुर में दिनांक 17.11.2015 को हुई पिक अप वैन चालक द्वारा एक घर में वाहन से हुई दुर्घटना के पश्चात् घटित विधि—व्यवस्था की समस्या एवं पुनः दिनांक 18.11.2015 को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगों के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पश्चात् उत्पन्न हुई गंभीर विधि—व्यवस्था की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट—1952 (सं0—60/1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रेम सिंह मीणा, भा०प्र०से० तदेन महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं सम्प्रति सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। विभागीय अधिसूचना सं०—67, दिनांक 06.01.2016 द्वारा इस आयोग का अंतिम अवधि विस्तार दिनांक 17.01.2016 तक किया गया था।

आयोग द्वारा ज्ञापांक—02, दिनांक 17.01.2016 द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त स्थिति में दिनांक 18.01.2016 के प्रभाव से लालगंज थाना, जिला—वैशाली अन्तर्गत दिनांक 17.11.2015 एवं 18.11.2015 को घटित घटना की जाँच हेतु गठित जाँच आयोग को विघटित किया जाता है।

[सं० बी०/सा०वि०व्य०(वैशाली)—01/2015—6210]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

28 जून 2016

एसओ 158, एसओ 157, दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

[सं० बी०/सा०वि०व्य०(वैशाली)-01/2015-6210]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

The 28th June 2016

S.O. 157, dated the 28th June 2016—Whereas vide Home (Special) Department Notification No.-B/Gen.Law&Ord.(Vaishali)-01/2015/252/S.S.Cell, Patna Dated 18.11.2015 the Governor of Bihar was pleased to constitute an Inquiry Commission under the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60, 1952) for inquiring into the incidents that took place as a consequence of the accident in a house involving a pick up van on 17.11.2015 in the village Agarpur under Police Station Lalganj of Vaishali District, and subsequently on 18.11.2015 after arson by local villagers involving the house of the pick up van driver and other leading to serious law & order problem and stone pelting, in which serious injuries were caused to the O.P. In-charge of Belsar and other police men, resulting in police firing. Sri Prem Singh Meena, IAS, then Inspector General, Jail and Correctional Services, Bihar now Secretary, SC/ST Welfare Department, Bihar, Patna. The last extension for Commission was granted upto 17/01/2016 vide Departmental Notification No. 67, Dated 06/01/2016. The Commission has submitted its final Inquiry report to the Department vide Memo No.-02, Dated 17/01/2016.

Therefore, In the circumstances, the constituted Inquiry Commission for inquiring into the incidents that took place under Lalganj PS on 17/11/2015 and 18/11/2015 of Vaishali District is dissolved w.e.f. 18/01/2016.

[No. B/Gen.Law&Ord.(Vaishali)-01/2015-6210]

By order of the Governor of Bihar,

JITENDRA KUMAR,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 536-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>